

निम्न वाक्यों में विराम चिह्न लगाए -

1. जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है।
2. वह एक धूर्त आदमी है ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं।
3. कल रविवार है छुट्टी का दिन है आराम मिलेगा।
4. हमारे देश को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
बेरोजगारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी आदि।
5. महात्मा गांधी सत्य के पुजारी
6. रिया ने संगीत का अभ्यास करने के लिए रात दिन एक कर दिया।
7. क्रिया के दो भेद हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया
8. निरंतर प्रयत्नशील रहो रुकना कायरता है।
9. काम बंद है बेकारी फैली है चारों ओर हाहाकार है।
10. नेहा मैं कल जाऊँगी।